

बुशफायर के लिए तैयारी करें अपना घर तैयार करें

जिस घर की अच्छे से तैयारी हुई हो, उसकी बुशफायर से बचने की संभावना अधिक होती है।

चाहे आपकी योजना समय से पहले निकल जाने की है, तो भी आप अपने घर को जितना अधिक तैयार करेंगे/करेंगी, इसकी बुशफायर या अंगारों के हमले से बचने की संभावना उतनी अधिक होगी।

अच्छे से तैयार घर:

- आपके या फायरफाइटरों द्वारा रक्षा करने के लिए अधिक आसान होता है
- की आपके पड़ोसियों के घरों को खतरे में डालने की संभावना कम होती है
- यदि कोई आग अचानक से खतरा पैदा करती है और आप निकल नहीं सकते/सकती हैं तो आपको अधिक संरक्षण देता है

✓ अपने घर को अधिक सुरक्षित करने के लिए शीर्ष के 5 कदम

आप अपने घर के आसपास कुछ सामान्य काम कर सकते/सकती हैं जिससे यह बुशफायर के लिए तैयार होता है। इनमें से कुछ नियमित काम होते हैं, जैसे कि घास काटना, कुछ अन्य काम एक बार किए जाने वाले होते हैं, परन्तु ये सभी काम आपको, आपके परिवार और आपके घर को बचाने में सहायता दे सकते हैं।

तैयारी करने के कदम	कौन जिम्मेदार है	समाप्ति
[] लटकते पेड़ों और झाड़ियों की कांट-छांट करें। ऐसा करने से आपके घर में आग फैलने से रोकी जा सकती है।		___ / ___ / ___
[] घास काटें और कतरन हटा दें। अपने घर के आसपास एक साफ क्षेत्र रखने से फायरफाइटरों को काम करने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र मिलेगा।		___ / ___ / ___
[] अपने घर के आसपास से ऐसी सामग्री हटा दें जो आग पकड़ सकती है। इसमें डोर मैट, लकड़ी के ढेर, गीली घास, पत्ते, बाहरी फर्नीचर शामिल है।		___ / ___ / ___
[] अपने घर के आसपास छत की गटर से सभी कचरा और पत्ते हटा दें और साफ-सफाई रखें। जल रहे अंगारे आपके घर में आग लगा सकते हैं।		___ / ___ / ___
[] पानी की एक मजबूत पाइप तैयार रखें जो कि आपके घर के चारों ओर पहुँचती हो। सुनिश्चित करें कि आपके पास पानी का एक विश्वसनीय स्रोत (पूल, टैंक, बांध) है और एक डीज़ल/पेट्रोल पंप उपलब्ध है।		___ / ___ / ___

AIDER प्रोग्राम

यदि आपकी तैयारी करने की क्षमता सीमित है और बुशफायर के खतरे में आने वाली ज़मीन पर अपनी प्रापर्टी की तैयारी करने के लिए आप परिवार, मित्रों या अन्य सेवाओं से सहायता तक पहुँच प्राप्त नहीं कर सकते/सकती हैं, तो Assist Infirm, Disabled and Elderly Residents (AIDER) प्रोग्राम के माध्यम से NSW RFS सहायता प्रदान करने में सक्षम हो सकती है।

और अधिक जानकारी के लिए, AIDER टीम से संपर्क करें:

फोन: 02 8741 4955

ई-मेल: aider@rfs.nsw.gov.au

वेबसाइट: www.rfs.nsw.gov.au/plan-and-prepare/aider

आपके घर के लिए और अधिक स्थायी संरक्षण

संरक्षण की वस्तुएँ	
<input type="checkbox"/> उन क्षेत्रों पर कोई रोक लगाएँ जहाँ से अंगारे घर में प्रवेश कर सकते हैं (बाहरी दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाज़े, घर के नीचे से)	<input type="checkbox"/> लकड़ी की बाड़ को बदल कर धातु की बाड़ लगवाएँ
<input type="checkbox"/> सभी खिड़कियों और रोशनदानों पर धातु की फ्लाइ स्क्रीन लगवाएँ	<input type="checkbox"/> पलवार के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग करें
<input type="checkbox"/> धातु के गटर गार्ड लगाएँ	<input type="checkbox"/> छत पर टूटी टाइलों की मरम्मत करवाएँ या यदि कोई टाइल गायब है तो उसे लगवाएँ
<input type="checkbox"/> गैस के सिलेंडरों को घर के एक तरफ पेड़ों और बगीचे से दूर रखें, प्रेशर वाल्व को घर से विपरीत दिशा में स्थापित करें	<input type="checkbox"/> यदि आपके घर में पूल, टैंक या बांध है, तो अपनी प्रापर्टी के प्रवेश द्वार पर Static Water Supply (SWS) साइन लगाएँ ताकि फायरफाइटरों को पता हो कि वे पानी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं
<input type="checkbox"/> गटरों पर फायर स्प्रिंकलर्स सिस्टम लगवाएँ	<input type="checkbox"/> होम एंड कंटेन्ट इंश्योरेंस की जांच करें और इसके पर्याप्त स्तर बनाए रखें सुनिश्चित करें कि यह नवीनतम है।
<input type="checkbox"/> गार्डन बैड घर से दूर रखें	

इस मौसम में बुशफायर के लिए तैयारी करने हेतु आप क्या कर सकते/सकती हैं, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए:



NSW Rural Fire Service की वेबसाइट
www.rfs.nsw.gov.au
www.myfireplan.com.au



आपका सबसे करीबी NSW RFS
फायर कंट्रोल सेंटर:



बुशफायर सूचना सेवा
1800 NSW RFS (1800 679 737)